



COVID-19 की प्रतिक्रिया में, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में 4 अप्रैल को लागू होने वाले बदलाव

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (2 अप्रैल, 2020) – COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी-19) की प्रतिक्रिया में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), अपने समुदाय को सुरक्षित रूप से सेवा प्रदान कर रहा है, 4 अप्रैल से शुरू करते हुए, निम्नलिखित वीकेंड बस सेवा में, अगले नोटिस तक बदलाव किए जाएंगे।

निम्नलिखित रूट्स प्रभावित होंगे।

शनिवार:

- 32 फादर टोबिन (32 Father Tobin) – सेवा रद्द की गई है; सोमवार से शुक्रवार चलती रहेगी
- 33 पीटर रॉबर्टसन (33 Peter Robertson) - सेवा रद्द की गई है; सोमवार से शुक्रवार चलती रहेगी
- 56 किंगनोल (56 Kingnoll) – सेवा रद्द की गई है; सोमवार से शुक्रवार चलती रहेगी
- 52 मैकमर्ची (52 McMurphy) – अब पूरा दिन बसें प्रत्येक 50 मिनट बाद आएंगी

रविवार:

- 32 फादर टोबिन - सेवा रद्द की गई है; सोमवार से शुक्रवार चलती रहेगी
- 56 किंगनोल - सेवा रद्द की गई है; सोमवार से शुक्रवार चलती रहेगी
- 52 मैकमर्ची – अब पूरा दिन बसें प्रत्येक 50 मिनट बाद आएंगी

ये बदलाव, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के कुछ व्यस्त रूट्स के लिए अतिरिक्त स्रोतों को दुबारा बांटने के लिए लागू होंगे क्योंकि हम शारीरिक दूरी जैसे उपायों का समर्थन करने के लिए बसों में आधी सीटों पर ही सवारियां ले रहे हैं।

अधिक बार सफाई और रोगाणु मुक्त करने की समय सारणी पहले की तरह ही प्रभावी रहेगी। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय बसों को हर 24 घंटों में रोगाणु मुक्त किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और रोगाणु मुक्त किया जा रहा है। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905-874-2999 पर पूछे जा सकते हैं।



BRAMPTON

Service and Information Update

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca